



Helps to Bring Strong Health & Wealth

About Us

Congratulations! for choosing career in "VADIC Network (P)Ltd." the right concept in Network Industry.


VADIC is a mission focusing on Health & Wealth with a purpose of building a strong team of Successful Leaders.

VADIC has innovative products for Healthy Life and Compensation Plan for Wealthy Life with the solution of problems, which people are facing in this Industry from a long time.

VADIC also aims for giving an opportunity to become an Part Time or Full Time Businessman by retailing our products and also sharing the opportunity with others.

Our "Product & Business Training Programmes" will help you to achieve your goals & targets

OUR INFRASTRUCTURE



Plot No. 43,
Shiv Transport Nagar,
Baldev Nagar, Ambala City

7015643886 / vadiccustomercare@gmail.com

OUR LEGAL



(Amended)

Government of India
Form GST REG-06
[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number :06AAHCV2804P1ZZ

1.	Legal Name	VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED			
2.	Trade Name, if any	VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED			
3.	Constitution of Business	Private Limited Company			
4.	Address of Principal Place of Business	PLOT NO 43, SHIV T P NAGAR, AMBALA CITY, Ambala, Haryana, 134007			
5.	Date of Liability				
6.	Date of Validity	From	01/02/2020	To	Not Applicable
7.	Type of Registration	Regular			
8.	Particulars of Approving Authority	Signature			
	Name				
	Designation				
	Jurisdictional Office				
9.	Date of issue of Certificate	02/04/2020			

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of Business/Office(s) in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the deemed approval of application on 02/04/2020 .



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Central Registration Centre

Certificate of Incorporation

[Pursuant to sub-section (2) of section 7 and sub-section (1) of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rule 18 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

I hereby certify that VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED is incorporated on this Twenty third day of January Two thousand twenty under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and that the company is limited by shares.

The Corporate Identity Number of the company is U52339HR2020PTC084931.

The Permanent Account Number (PAN) of the company is **AAHCV2804P** *

The Tax Deduction and Collection Account Number (TAN) of the company is **RTKV06882B** *

Given under my hand at Manesar this Twenty third day of January Two thousand twenty .

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS OF INDIA

Digital Signature Certificate
VILAS SAMBHAJI HAJARE
DEPUTY REGISTRAR OF COMPANIES
For and on behalf of the Jurisdictional Registrar of Companies
Registrar of Companies
Central Registration Centre

Disclaimer: This certificate only evidences incorporation of the company on the basis of documents and declarations of the applicant(s). This certificate is neither a license nor permission to conduct business or solicit deposits or funds from public. Permission of sector regulator is necessary wherever required. Registration status and other details of the company can be verified on www.mca.gov.in

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED
PLOT NO 43, SHIV T P NAGAR, AMBALA CITY, Ambala, Haryana,
India, 134007



* as issued by the Income Tax Department

OUR LEGAL



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT


भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
AAHCV2804P

नाम / Name
VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED

निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation/Formation
23/01/2020



इस कार्ड के खोने/पाने पर कृपया सूचित करें/लौटाएं:
आयकर पैन सेवा इकाई, एन एस डी एल
5 वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग,
प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,
मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास,
पुणे - 411 016.

*If this card is lost / someone's lost card is found,
 please inform / return to :*

Income Tax PAN Services Unit, NSDL
5th Floor, Mantri Sterling,
Plot No. 341, Survey No. 997/8,
Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk,
Pune - 411 016.

Tel: 91-20-2721 8080, Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: tininfo@nsdl.co.in

3/17/22, 12:58 PM

Print : Udyam Registration Certificate

भारत सरकार
Government of India
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises


UDYAM
REGISTRATION CERTIFICATE

UDYAM REGISTRATION NUMBER UDYAM-HR-01-0012630
NAME OF ENTERPRISE M/S VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED
TYPE OF ENTERPRISE * MICRO
MAJOR ACTIVITY MANUFACTURING
SOCIAL CATEGORY OF ENTREPRENEUR OBC

NAME OF UNIT(S)

S.No.	Name of Unit(s)			
1	MS VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED			

OFFICAL ADDRESS OF ENTERPRISE

Flat/Door/Block No.	PLOT NO 43	Name of Premises/ Building	Baldev Nagar
Village/Town	AMBALA	Block	-
Road/Street/Lane	Shiv Transport Nagar	City	AMBALA
State	HARYANA	District	AMBALA, Pin 134007
Mobile	9416100450	Email:	ravinder90785@gmail.com

DATE OF INCORPORATION / REGISTRATION OF ENTERPRISE 23/01/2020
DATE OF COMMENCEMENT OF PRODUCTION/BUSINESS 23/01/2020

NATIONAL INDUSTRY CLASSIFICATION CODE(S)

S.No.	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit	Activity
1	21 - Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products	2100 - Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products	21003 - Manufacture of 'ayurvedic' or 'unani' pharmaceutical preparation	Manufacturing
2	32 - Other manufacturing	3250 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies	32509 - Manufacture of other medical and dental instruments n.e.c.	Manufacturing
3	32 - Other manufacturing	3290 - Other manufacturing n.e.c.	32909 - Manufacture of other articles n.e.c.	Manufacturing
4	86 - Human health activities	8690 - Other human health activities	86904 - Activities of nurses, masseurs, physiotherapists or other para-medical practitioners	Services
5	86 - Human health activities	8690 - Other human health activities	86909 - Other human health activities n.e.c. (including independent ambulance activities)	Services
6	88 - Social work activities without accommodation	8890 - Other social work activities without accommodation n.e.c.	88900 - Other social work activities without accommodation n.e.c.	Services

DATE OF UDYAM REGISTRATION 17/03/2022

* In case of graduation (upward/reverse) of status of an enterprise, the benefit of the Government Schemes will be availed as per the provisions of Notification No. S.O. 2119(E) dated 26.06.2020 issued by the Mo/MSME.

Disclaimer: This is a computer generated statement, no signature required. Printed from <https://udyamregistration.gov.in> & Date of printing:- 17/03/2022

For any assistance, you may contact:

1. District Industries Centre: AMBALA (HARYANA)

<https://udyamregistration.gov.in/PrintApplication.aspx?udrm=5p0TuRA7TKRkrfmaa6K2kQ==>

OUR LEGAL





Form C
Government of India
Food Safety and Standards Authority of India
License under FSS Act, 2006



अनुज्ञापि संख्या / License Number: **10020064002524**



<p>1. Name & Registered Office address of Licensee / अनुज्ञापिधारी के पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता:</p>	<p>VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED PLOT NO.43 SHIV T P NAGAR, AMBALA CITY, HARYANA - 134007, Ambala, Haryana-134007</p>
<p>2. Address of Authorized Premises / प्राधिकृत परिसरों का पता:</p>	<p>PLOT NO.43 SHIV T P NAGAR, AMBALA CITY, HARYANA - 134007, Ambala, Haryana-134007</p>
<p>3. Kind of Business / कारोबार का प्रकार:</p>	<p>Trade/Retail - Retailer E-Commerce - e-Commerce</p>
<p>4. Dairy Business Details / डेयरी कारोबार विवरण हेतु:</p>	<p>No</p>
<p>5. Category of License / अनुज्ञापि का वर्ग:</p>	<p>Central License</p>

This license is granted under and is subject to the provisions of FSS Act, 2006 all of which must be complied with by the licensee. / यह अनुज्ञापि खाद्य संस्था और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुदत्त की गई और यह अधिनियम के उपबंधों के अध्यादेन हेतु त्रिका अनुज्ञापिधारी द्वारा अवश्य पालन किया जाना चाहिए.

Place / स्थान: FSSAI Delhi

Issued On / दिनांक: 19-08-2021 (Renewal License)

Valid Upto: / वैधता: 26-09-2022 (For details, refer Annexure)

Designated Officer
नामित अधिकारी

Annexures:

1. [Product Annexure](#)
2. [Validity Annexure](#)
3. [Non-Form C Annexure](#)
4. [Conditions Of License](#)

Note:

1. Application for renewal of License can be filed as early as 180 days prior to expiry date of License. You can file application for renewal or modification of License by login into FSSAI's Food Safety Compliance System(<https://foscos.fssai.gov.in>) with your user id and password or call us at 1800112100 for any clarification.
2. This License is only to commence or carry on food businesses and not for any other purpose.
3. This is computer generated license and doesn't require any signature or stamp by authority.

Page 1 of 6

HUMAN BODY SYSTEM



HUMAN
BODY



Respiratory
System



Skelton
System



Muscular
System



Digestive
System



Circulatory
System



Nervous
System

Cause of AIR Pollution



Cause of WATER Pollution



FOOD



FOOD (MEAT)



SMOKING



DRINKING



Excess Use



Allopathy

STRESS



LACK of SLEEP



Lack of Exercise



बढ़ रहे लिवर कैंसर व फैटी लीवर के मामले

हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल खासकर रुद्रपुर और किच्छा क्षेत्र में लिवर कैंसर, फैटी लिवर और हेपेटाइटिस सी के मामले में बढ़ रहे हैं। बीएलके सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के आईएमए हल्द्वानी चेंटर के सहयोग से आयोजित कॉन्ट्रिब्यूट मैडिकल एजुकेशन (सीएमई) में यह बात सामने आई है। डॉ. संजय सिंह नेगी सीनियर कंसल्टेंट एवं डायरेक्टर, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, बीएलके सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के अनुसार मरीजों की जांच से चौंकाने वाली बातें सामने आईं। खासकर रुद्रपुर एवं किच्छा में लिवर कैंसर, फैटी लिवर एवं हेपेटाइटिस सी के मामले बढ़ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि लोगों को इन बीमारियों की जानकारी तब तक नहीं हो पाती है, जब तक वो पुरानी होकर एडवांस्ड स्टेज में न पहुँच जाए। डॉ. एचएस भट्टयाल, एडवाइजर एवं सीनियर कंसल्टेंट, यूरोलॉजी एवं रीनल



ट्रांसप्लांटेशन, बीएलके सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ने सेहतमंद रहने के लिए जीवनशैली में बदलाव लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अल्कोहल, कैफ़ीन एवं कार्बोनेटेड पेय पदार्थों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्यूंडर को प्रभावित करते हैं और सेहतमंद रहने के लिए फाइबर से भरपूर आहार लेना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सीएमई में राज्य के 50 से अधिक डॉक्टरों एवं मेडिकल प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। यह सीएमई नेफ़्रोलाजी, यूरोलॉजी एवं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी के

बच्चे भी होते हैं हृदय रोग के शिकार

फरीदाबाद, 13 सितम्बर (सूरजमल) : सेंक्टर 21ए स्थित एशियन अस्पताल में रविवार को आयोजित सेमिनार में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. ऋषि गुप्ता और डॉ. सिम्मी मनोचा ने बताया कि हृदय रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से नवजात भी हृदय रोग की चपेट में आ रहे हैं। इस मौके पर जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें करीब 400 लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच किया गया। जीवनशैली में बदलाव कर इस रोग को रोका जा सकता है।



सेमिनार को संबोधित करते डाक्टर। (संजीव)

इसका बड़ातम अस्पताल के सीएसडी आर, एनके पंडे ने की। इस दौरान बच्चों में भी यह बीमारी तेजी से अपना रहा है। इसकी जांच तीन प्रकार से किया जा सकता है। एक से तीन महीने में, बच्चा बड़ा होने पर और सांस में दिक्कत होने की शिकायत पर हृदय रोग का जांच किया जा सकता है। जीवनशैली में होने वाली बदलाव के कारण बच्चों में यह बीमारियाँ लगातार बढ़ रही है। इस रोग से पीड़ित बच्चा तेजी से सांस लेता है। बच्चा कान न बढ़ना, ज्यादा

होना और हाँठ और नाखूनों का नीला पड़ना आदि इसके लक्षण हैं। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के दौरान भी बच्चों में हृदय रोग (फेटल हर्ट) जांच के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। शिशुओं के दिल में छेद की बिना सर्जरी देवाह के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अगर सर्जरी की आवश्यकता हो तो किसी भी उम्र में की जा सकती है। उन्होंने बताया कि युवाओं में तेजी से हृदय रोग बढ़ रहा है। अभी तक इसकी जांच 40 वर्ष के बाद किया जा रहा था, लेकिन

गायनोकोलॉजी कैंसर महिलाओं में कैंसर से डेने वाली मौत का दूसरा कारण : डा. संध्या सूद

सुधियाना, 27 सितम्बर जोशी/बी.एन.608/9) : हर साल जिन्या में 5 लाख महिलाएं हायनेकोलॉजी कैंसर से प्रभावित होती हैं। अकेले भारत में 1 लाख से अधिक महिलाएं इस रोग से पीड़ित हैं। यह रिसर अनिश्चित विकास एवं रसायन कोशिकाओं का प्रसरण है। प्रजनन अंगों से उत्पन्न होता है। इमेरोकन गायनोकोलॉजी इंस्टीट्यूट डी डा. संध्या सूद सीनियर हेनकोलॉजिस्ट ने आज एक भेटवार्ता में बताया कि गायनोकोलॉजी कैंसर प्रकाश के होते हैं। प्रोवा कैंसर,

डिम्बग्रंथि कैंसर, गर्भाशय कैंसर, योनि कैंसर और बल्बर कैंसर। डा. संध्या ने कहा कि भारत में महिलाएं अभी भी कैंसर के बारे में शकवाही बरतने या खुद परीक्षण कराने में शर्माती हैं और परिवार में चिज करने से कतलती हैं, जो अग्रे जाक जानलेवा बन जाता है। ओवन (डिम्बग्रंथि) कैंसर से भारत में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि उनमें जागृकता की कमी है। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मैडीकल ट्रेट आदि सुविधाओं की भी कमी है।

शहर के 57 प्रतिशत लोगों के फेफड़े कमजोर

वर्ल्ड सीओपीडी दिवस के अवसर पर विकिसकों का सर्वे कहा धूम्रपान व बढ़ रहे प्रदूषण का पड़ रहा गहरा असर गुडगांव, 18 नवम्बर (संजय) : वर्ल्ड सीओपीडी (क्रोनिक ओब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस) के मौके पर सर्वे लीज किया गया जिसके तथ्य काफी चिंतानक थे। इस सर्वे के मुताबिक, गुडगांव के 68 फीसदी अधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर सांस लेने में तकलीफ पड़ गई। परीक्षण में 57 फीसदी लोगों के फेफड़ों की क्षमता सामान्य से कम और 48 फीसदी के फेफड़ों की कार्यक्षमता में ओब्सट्रक्टिव एक्ससे डिजीज यानि कि अस्थमा सीओपीडी के संकेत मिले। इस सर्वे को सुधवार को फेमोमोलॉजिस्ट के एक समूह ने आयोजित किया, जिसमें खराब वायु की वजह से सांस से जुड़ी समस्याओं के कई अस्थानिक और चिंतानक तथ्य सामने आए। सर्वे का खुलासा करते हुए डॉ. हिमांशु गर्ग ने बताया उन्हें उम्मीद है कि ये सर्वे लोगों के लिए आंखें खोलने वाले हैं साथ ही

स्वास्थ्य से जुड़े हितधारकों को इस समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी। सर्वे में जुटाए गए आंकड़े जारी करते हुए उन्होंने बताया कि इस सर्वे में 21 फीसदी प्रतिवादियों को महीने में कुछ दिन खांसी रहती है और 8 फीसदी को लगातार कि व्यायाम क्षमता कम होने की वजह से उनका रोजमर्रा का काम प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि आंकों के अनुसार बाहरी वायु प्रदूषण (बाहरी वायु प्रदूषण और यातायात से जुड़ वायु प्रदूषण) और अंदर के वायु प्रदूषण व अन्य द्वारा किया जा रहा धूम्रपान और वायोमैस ईंधन, जलने से होने वाला प्रदूषण से क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का विकसित होना जुड़ा है। उन्होंने यहां शेल ही में जारी एक अन्य रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि एसआरजी की स्थिति ज्यादा भयंकर है। धूलू स्थिति भी खतरनाक भारत में 70 फीसदी घरों में बयोमैस ईंधन का प्रयोग खाना बनाने और गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रसोई में सही तरीके से हवा का आवागमन नहीं होता है। जिससे घरों में प्रदूषण के कच बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं। गांवों में रहने वाली महिलाएं खाना बनाने का काम करती हैं और सही तरीके से ज्यादा प्रभावित होती हैं।



PUNJAB KESARI
CHANDIGARH KESARI
07-12-09

हर वर्ष कैंसर के 8 लाख नए मरीज आते हैं : सहगल

कैंसर संतानाया आयोग की अध्यक्ष रेणु सहगल अल्प प्रयासियों के साथ संजीवगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करती हुई।

कैंसर कैंसर इकिया का राष्ट्रीय सम्मेलन 8 से चौडीगढ़ में

कैंसर संतानाया आयोग की अध्यक्ष रेणु सहगल अल्प प्रयासियों के साथ संजीवगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करती हुई।



12 साल का कफिया व 80 साल तक का पृष्ठ का संस्था

महिलाओं में बढ़ रहा ओवरी कैंसर

आगरा उजाला म्यूज

कैंसर के अग्रणी रोगों में से एक ओवरी कैंसर है। यह रोग महिलाओं में बढ़ रहा है।


डॉ. सुमिता प्रभकर ने बताया कि ओवरी कैंसर का प्रारंभिक चिह्न नहीं होता है।

Can Protect Foundation President Dr.Sumita Prabhakar article in leading news Paper about early symptoms of ovarian cancer, Dr. Sumita Prabhakar also conducted four camps on each Saturday of September.

OUR PRODUCT



KEY INGREDIENTS



60 Capsules

VADIC -9



Help to cure
100+
Diseases
very beneficial

- ANDROGRAPHIS PANICULATA : 30mg
- OCIMUM TENUIFLORUM : 30mg
- AZADIRACHTA INDICA : 30mg
- TINOSPORA CORDIFOLIA : 30mg
- BOCOPA MONNIERI : 30mg
- GREEN TEA : 30mg
- CURCUMIN : 30mg
- MORINGO : 30mg
- **PHYLLANTHUS NIRURI : 30mg**
- **AALIUM SATIVUM : 40mg**
- **NIGELLA SATIVA : 50mg**
- **WITHANIA SOMNIFERA : 30mg**
- **GREEN COFFEE : 30mg**
- **PINE BARK : 50mg**
- **TERMINALIA ARJUNA : 30mg**



HEALTH BENEFITS OF VADIC 9

- Helps to Diabetes
- Helps to Cholesterol
- Helps to Prostate
- Helps to Ringworm
- Helps to Jock Itch
- Helps to Athlete Foot
- Helps to Cancer
- Helps to Joints Pain
- Helps to AIDS
- Helps to Constipation
- Helps to Kidney Problem
- Helps to TB
- Helps to Ulcer
- Helps to Psoriasis
- Helps to Liver Disease
- Helps to Hair Loss
- Helps to Skin Problems
- Helps to Chest Pain
- Helps to Heart Diseases
- Helps to Swelling
- Helps to Osteoporosis
- Helps to Vaginal Yeast Infection
- Helps to Premature Ejaculation
- Helps to Epilepsy
- Helps to Metabolic Syndrome
- Helps to Weight Management
- Helps to Digestive Problem
- Helps to Viral & Bacterial Diseases
- Helps to Asthma
- Helps to Bronchitis
- Helps to Boost Immunity
- Helps to Arthritis
- Helps to Gout
- Helps to Anxiety
- Helps to Male Infertility
- Helps to Parkinson
- Helps to Acne
- Helps to Depression
- Helps to Allergies
- Helps to Alzheimer's
- Helps to FLU
- Helps to Sinusitis
- Helps to Migraine
- Helps to Dental Plague
- Obesity
- Helps to Stress
- Helps to Menstrual Problem
- Helps to Insomnia
- Helps to Kidney Stone
- Helps to Boost Energy & More

Helps for doing Cleansing & Detoxification



Helps for doing Cleansing & Detoxification



Helps to Create New Cell & Reactivation of Cell

A true detox must focus on 5 Major Areas:




Cells



Blood






Gut



Liver




Kidneys




TRADITIONAL MARKET / VADIC NETWORK MARKET

Traditional Market Distribution



VADIC Network Distribution



BUSINESS OPPORTUNITY



FREE Business Opportunity

HOW TO START

To become a part of VADIC Network Private Limited, one has to register himself/herself as a Customer/Distributor with the Company free of cost by filling a simple Registration Form available on the website: www.vadicindia.com.



HOW TO START

**If Customer/Direct seller
wants to earn commission on sales
Made by him/her**

**he/she has to make
a self-sale of the company's product
with
1975 PV .**



HOW TO START

**If Customer/ Super Direct seller
wants to earn commission on sales
Made by him/her**

**he/she has to make
a self-sale of the company's product
with
4950 PV .**



CONCEPT OF VADIC NETWORK DIRECT SELLING

VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED is most trusted company in the Business of Direct selling through the unique Compensation Plan according to the achieved sales criteria. Direct selling refers to selling products directly to the consumer in a non-retail environment. Instead, sales occur at home, work, or other non-store location. This system often eliminates several of the middlemen involved in product distribution, such as the regional distribution centre and wholesaler. Instead, products go from manufacturer to the direct sales company, to the distributor or rep, and to the consumer.


The products sold through direct sales are usually not found in typical retail locations, which means finding a distributor or rep is the only method to buy the products or services.

All the sales was done by through its sales agent i.e Direct sellers and middleman commission was given to the Direct sellers/sales agent during the considering year. This is the basics reason of the distribution of large/huge commission to the direct sellers.

KEY BENEFIT OF OUR CONCEPT AND BUSINESS PLAN

- 1. To Direct support to own sales group.**
- 2. To eliminate spill over among the down sales group.**
- 3. To clarify and explain the commission on calculation basis with mathematically manner.**
- 4. To distribute the commission on Direct selling only.**
- 5. To use the capping so that the sales commission could shall be distribute from top to bottom level in equal ratio.**
- 6. To provide the sales commission intentionally while using the carry forward method so that there would not be skip off the income when Direct seller is not having matched Sales point but his/her unmatched sales point shall be transfer for calculation of next level sales commission.**
- 7. No quick or easy money, all the commission is exclusively depends upon your sales performance only.**
- 8. No pyramid sales, with using creating unlimited Direct sellers as sales force and no commission payment is paid on recruitment basis. Only sale of products is first and last option to a boost your sales commission.**
- 9. Direct seller platform is exclusively opened for consumers.**
- 10. No kit or joining fees , to earn sales commission purchases/sale of any product which is having Sales point and these sales point the base for entitlement of sales commission.**

OUR PRODUCTS




Company Name	:	VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED.
Product	:	VADIC - 9
Price (MRP)	:	Rs. 2478/-
Price (DP)	:	Rs. 1950/-
		(included GST as per applicable)
Point Volume	:	1650 PV
Point Value	:	1 PV (Point Value)

OUR PRODUCTS




Company Name	:	VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED.
Product	:	VADIC - 6
Price (MRP)	:	Rs. 999/-
Price (DP)	:	Rs. 850/-
		(included GST as per applicable)
Point Volume	:	750 PV
Point Value	:	1 PV (Point Value)

OUR PRODUCTS




Company Name	:	VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED.
Product	:	VADIC - 18
Price (MRP)	:	Rs. 2499/-
Price (DP)	:	Rs. 1800/-
		(included GST as per applicable)
Point Volume	:	1100 PV
Point Value	:	1 PV (Point Value)

OUR PRODUCTS



Company Name	:	VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED.
Product	:	VADIC - 36
Price (MRP)	:	Rs. 1800/-
Price (DP)	:	Rs. 1450/-
		(included GST as per applicable)
Point Volume	:	1225 PV
Point Value	:	1 PV (Point Value)




Company Name	:	VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED.
Product	:	VADIC - 45
Price (MRP)	:	Rs. 1300/-
Price (DP)	:	Rs. 999/-
		(included GST as per applicable)
Point Volume	:	999 PV
Point Value	:	1 PV (Point Value)

OUR PRODUCTS



Company Name	:	VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED.
Product	:	VADIC - 369
Price (MRP)	:	Rs. 1350/-
Price (DP)	:	Rs. 1050/-
		(included GST as per applicable)
Point Volume	:	1050 PV
Point Value	:	1 PV (Point Value)

UNLIMITED SALE



A Customer/Distributor/Direct seller can do unlimited sales of products & make their Business Partner Team and can enjoy the Income of VADIC Compensation Plan.

RETAIL DISCOUNT

Retail Discount - Margin between the Maximum Retail Price (MRP) & Distributor Price (DP)



For Example :
You have purchased product of 1650 PV for Self Use

MRP : 2478

DP : 1950

Saving : 528

RETAIL PROFIT : Rs. 528/-


SALES INCENTIVES AS PER MATCHED POINT VALUE FOR DIRECT SELLER

**8% of matched /similar PV in both Sales Group
i.e. Sales Power Group (SPG) and Sales Developer Group (SDG)**



For Example :

Suppose : A Direct Seller has made with 1975 PV Sale in both of Two Sales Groups.



The Total Point Value in both TERMS is as under :

Sales to Customer by Sales Power Group : 1975 PV

Sales to Customer by Sales Developer Group : 1975 PV

Total Matched / Similar PV is 1975 PV

Total Sales Incentive : $1975 \text{ PV} \times 8\% = 158/-$


SALES INCENTIVES AS PER MATCHED POINT VALUE FOR SUPER DIRECT SELLER

**12% of matched /similar PV in both Sales Group
i.e. Sales Power Group (SPG) and Sales Developer Group (SDG)**



For Example :

Suppose : A Super Direct Seller has made with 4950 PV Sale in both of Two Sales Groups.



The Total Point Value in both TERMS is as under :

Sales to Customer by Sales Power Group : 4950 PV

Sales to Customer by Sales Developer Group : 4950 PV

Total Matched / Similar PV is 4950 PV

Total Sales Incentive : $4950 \text{ PV} \times 12\% = 594/-$

Kindly Note That :

- **For such sales Incentive Commission, every Direct seller shall have minimum one sales team as Sales power Group (SPG) but there is not limit of maximum i.e it may be unlimited, depend upon the own skill and expertise of the Direct seller.**
- For such sales Incentive Commission, every Direct seller shall have minimum one , another sales team as Sales Developer Group (SDG) but there is not limit of maximum i.e it may be unlimited, depend upon the own skill and expertise of the Direct seller.
- In this sales Commission scheme, the sales commission shall be paid to the Direct seller on the achieved and matched sales point between own Sales power Group (SPG) which have highest sales point and Sales Developer Group (SDG) which have highest sales point as result the sales of products made by the own Sales power Group (SPG) and Sales Developer Group (SDG)
- For such sales Incentive Commission, Every Direct seller, may engage unlimited direct sponsors in own sales team as Direct seller to promote sales of the company in own sales group.
- Direct seller shall promote, trained, develop expertise to direct sellers whose are under own Sales Achievement organisation and Sales Generation organisation to create/explore maximum sales business in the company.
- Direct seller may guide and monitor to all direct sellers whose are under own Sales Achievement organisation and Sales Generation organisation.

CAPPING : 50000 Capping per week

Capping is the tool to provide the balance or equality in respect of the sales commission among the Direct sellers and provide the sales commission at the bottom level of the Direct sellers.

SAME DAY SALES ACHIVEMENT BONUS



Criteria : A Super Direct seller has achieved 4950 PV sales in both of Two sales Group on the same day as his/her self sale of product day, than such Direct seller shall also be eligible for Same day Sales Achievement Bonus with Sales incentive as described earlier.

Suppose : A Super Direct seller has made 4950PV Sales in both of Two sales Group :
(on same day on his/her self sale of product)

The Total Point Value in both teams is as under:

Sales to Customer by Sales Developer Group	:	4950 PV
Sales to Customer by Sales Power Group	:	4950 PV

Total Matched/similar PV is 4950 PV

Total Sales Incentive	:	$4950 \text{ PV} \times 12\%$:	594/-
-----------------------	---	-------------------------------	---	-------

Further, Total Same Day Sales Achievement Bonus	:	2478/- (Vadic-9 Product Free)
---	---	-------------------------------

Total Incentive: 594/- + 2478/- (Vadic-9 Product Free)

SALES BOOSTER BONUS (within 15 Days)

Criteria : A Super Direct seller has achieved 14850 PV sales in both of Two sales Group with 6 new customers within 15 Days since his/her self sale of product day, than such Direct seller shall also be eligible for sales Booster Bonus which will be just equal to achieved sales incentive with Sales incentive as described earlier.

Suppose : A Super Direct seller has made 14850 PV Sales in both of Two sales Group :
(on same day on his/her self sale of product)

The Total Point Value in both teams is as under:

Sales to Customer by Sales Developer Group : 14850 PV

Sales to Customer by Sales Power Group : 14850 PV

Total Matched/similar PV is 14850 PV

Total Sales Incentive : 14850 PV x 12% : 1782/-


Further, Total Sales Booster Bonus : 1188/-

Total Incentive: 1782/- + 1188/- = 2970/-


SALES PERFORMANCE COMMISSION & RECOGNITION ACHIVEMENT STAR

Criteria : Who is Star ?


Structure Star with Double Matching Bonus



Sponsor Star with Double Matching Bonus



Life Time Star with Double Matching Bonus



RECOGNITION ACHIEVEMENT BONUS

RANKS	RECOGNITION ACHIEVEMENT Criteria : A Direct Seller has made below No. of Stars in Both of Two Sale Group	REWARDS As per below Percentage	CLUB VALUE (IN RS.)
PLATINUM	5 : 5	11,250	11,250
SAPPHIRE	25 : 25	8,662	60,000
EMERALD	50 : 50	12,993	1,50,000
DIAMOND	150 : 150	38,981	4,00,000
WHITE DIAMOND	450 : 450	1,16,943	15,00,000
BLUE DIAMOND	900 : 900	9,35,550	35,00,000
PINK DIAMOND	1800 : 1800	18,71,100	50,00,000
CROWN DIAMOND	3600 : 3600	37,42,200	1,20,00,000
AMBASSDOR	10000 : 10000	1,03,95,000 + JAGUAR (BASE MODEL)	2,50,00,000
CROWN AMBASSDOR	30000 : 30000	1,55,92,500 + VILLA	4,00,00,000
ROYAL AMBASSDOR	60000 : 60000	2,07,90,000 + LUXURY VILLA	7,00,00,000

Kindly Note That :

- **All above recognition may be calculated on the weekly Basis as per above described.**
- **When the Direct seller shall achieve any of the above recognition than he will be recognised with the above mentioned reward as described in the front of the recognition.**
- **Such recognition is related to a boost the Direct seller sales target. Further, the Super Direct seller who have specified recognition, can not take the benefit more than the specified times on the same level/ recognition, due to this reason that to upgrade the present level to higher level/ recognition, Super Direct seller should have efforts. I would be best supportive tool for development and growth of Super Direct seller.**
- **Capping is the tool to provide the balance or equality in respect of the sales commission among the Direct sellers and provide the sales commission at the bottom level of the Direct sellers.**


Kindly Note That :

- **For Example the Super Direct Seller achieve Sapphire Level, He/She will receive a reward of Rs. 8662/-.** After this achievement He/She will receive 8% of Monthly Current Point Value for 1 year. The 8% Bonus will not paid over the total Sapphire Club Value Rs. 60000/-
- **When the Super Direct seller shall achieve any of the above recognition than he will be recognised with the above mentioned reward as described in the front of the recognition.**
- **When the Direct Seller achieve next Level, The Club value will Automatically increase he/she will be shifted to next Level on Automatic basis.**
- **For more details about company`s all Policies (Advertisement Policy, Payment Policy, Order Policy, Shipment Policy, Delivery Policy, Exchange Policy, Return Policy, Direct Seller policy, Delist Direct Seller Policy, Privacy Policy, Social Media Policy, Grievance Policy, Grievance CGRM Policy , Monitoring Committee Policy & Testimonial Policy) & all other Policies, Kindly visit our website www.vadicindia.com**



**AUTO
REPURCHASE**

OUR PRODUCTS



MRP : 2478/-
(including 18% GST)

DP : 1950/-
(including 18% GST)

PV : 1650

(60 Capsules)



MRP : 999
(including 12% GST)


DP : 850/-
(including 12% GST)

PV : 750

RETAIL PROFIT

Retail Profit is Saving Margin between the Maximum Retail Price (MRP) & Distributor Price (DP)

**For Example :
Mr You have purchased product for Self Use or Retail Sale**



MRP : 2478/-
DP : 1950/-
Saving : 528/-

RETAIL PROFIT SAY : Rs. 528/-



MRP : 999/-
DP : 850/-
Saving : 149/-

RETAIL PROFIT SAY : Rs. 149/-



TEAM "A"

Total No. of Resale Vadic-36 (200 x 1225 PV) = 245000 PV

Total No. of Resale VADIC-9 (200 x 1650 PV) = 330000 PV

Total No. of Resale VADIC-6 (150 x 750 PV) = 112500 PV

Total Point Value = 687500 PV

TEAM "B"

Total No. of Sale (100 x 1225 PV) = 122500 PV

Total No. of Resale VADIC-9 (70 x 1650 PV) = 115500 PV

Total No. of Resale VADIC-6 (100 x 750 PV) = 75000 PV

Total No. Point Value = 313000 PV

Total Matching Point Value = 313000 PV

Total MATCHING POINT VALUE = 313000 PV

Total Incentive = 313000 PV x 12 % = RS.37560/-

• Repurchase Plan Calculation will be distributed on Monthly PV Matching Business & rest Pv will be Flushout.



TEAM "A"

Total No. of Resale (200 x 1225 PV) = 245000 PV

Total No. of Resale VADIC-9 (200 x 1650 PV) = 330000 PV

Total No. of Resale VADIC-6 (150 x 750 PV) = 112500 PV

Total Point Value = 1432500 PV

TEAM "B"

NO REPURCHASE

Self sale of VADIC-9 (20x1650 PV) = 33000 PV

Self Repurchase PV will be added on weaker team section & Payout will be calculated on Monthly basis(Flushout)

Total MATCHING POINT VALUE = 33000 PV

Total Incentive = 33000 PV x 12 % = RS.3960/-

• Repurchase Plan Calculation will be distributed on Monthly PV Matching Business & rest Pv will be Flushout.

VADIC NETWORK PRIVATE LIMITED

REGISTERED OFFICE

**Plot No. 43,
Shiv Transport Nagar,
Ambala City, Haryana (134007) INDIA)**

CIN No : U52339HR2020PTC084931

Contact No : + 91 7015643886

Email : vadiccustomercare@gmail.com

Website : www.vadicindia.com